



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485]  
No. 485]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2007/कार्तिक 11, 1929  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2007/KARTIKA 11, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
(पोत परिवहन विभाग)  
(दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय)  
अधिसूचना

नोएडा, 30 अक्टूबर, 2007

सा.का.नि. 693(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह “ग” अराजपत्रित, अननुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह “ग” अराजपत्रित, अननुसचिवीय) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (समूह “ग” अराजपत्रित, अननुसचिवीय) पद भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची में,—

(i) क्रम सं. 1 पर आने वाले नक्शानवीस, श्रेणी-II पद के सामने, स्तंभ 8 में, “अनिवार्य” शीर्ष के अधीन, मद (3) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में नक्शानवीस का तीन वर्ष का अनुभव”

(ii) क्रम सं. 2 पर आने वाले नक्शानवीस, श्रेणी-III पद के सामने, स्तंभ 8 में, “वांछनीय” शीर्ष के अधीन, “कम्प्यूटर सहायक डिजाइन सॉफ्टवेयर” शब्दों के स्थान पर, “केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में कम्प्यूटर सहायक डिजाइन सॉफ्टवेयर” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 3/3/2002-प्रशा.-I]

एम. एम. सिंह सुमन, महानिदेशक

पाद टिप्पण : मूल नियम सं. सा.का.नि. 87, तारीख 17 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT  
AND HIGHWAYS  
(Department of Shipping)  
(DIRECTORATE GENERAL OF LIGHTHOUSES  
AND LIGHTSHIPS)  
NOTIFICATION

Noida, the 30th October, 2007

G.S.R. 693(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group “C” Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group “C” Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate General of Lighthouses and Lightships (Group “C” Non-Gazetted, Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 2006,—

(i) against the post of Draughtsman Grade-II appearing at serial number 1, in column 8, under the heading “Essential”, for item (3), the following item shall be substituted, namely :—

“(3) Three years experience in Draughtsmanship in the Central Government or the State Government or a public sector undertaking or any autonomous body”,

(ii) against the post of Draughtsman Grade-III appearing at serial number 2, in column 8, under the heading “Desirable”, for the words “Computer aided design software”, the words “Computer aided design software in the Central Government or the State Government or a public sector undertaking or an autonomous body” shall be substituted.

[F. No. 3/3/2002-Admn.-I]

M. M. SINGH SUMAN, Director General

Foot Note: The principal rules were published vide Number G.S.R. 87, dated the 17th April, 2006.